



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 939)

पटना, बुधवार, 19 अगस्त 2015

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचनाएं

19 अगस्त 2015

एस0 ओ0 197, दिनांक 19 अगस्त 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 (2005 की अधिनियम सं0 27) की धारा—10 की उप—धारा (2) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं0 47 दिनांक 06 अप्रैल 2015 की कंडिका(4) के अनुसरण में सुपोल अंचल कार्यालय के प्रारम्भ होने की तिथि 17.08.2015 अधिसूचित की जाती है।

(सं0 6 / प0सृ0-19-01 / 2014-4466)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

19 अगस्त 2015

एस0 ओ0 198, एस0 ओ0 197, दिनांक 19 अगस्त 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इस का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 6 / प0सृ0-19-01 / 2014-4466)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 19th August 2015

S.O. 197, Dated the 19th August 2015—in pursuance of para (4) of departmental notification no. 47 dated 06.04.2015 issued under sub-section (2) of Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No.27 of 2005), the date of commencement of Supaul circle is notified as dated 17.08.2015

[No. 6/Pa.Sri.-19-01/2014-4466]

By order of the Governor of Bihar,

RAVI MITAL,

Commissioner-cum-Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 939-571+1000-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>